



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

31 जुलाई 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां*					
(₹ करोड़)					
मद	2025	2026		घट-बढ़	
	25 जुलाई	17 जुलाई	24 जुलाई	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
4. ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	0	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	24026	20629	24197	3568	171

* आंकड़े अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

2. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि*								
मद	24 जुलाई 2026 तक		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2026 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलियन अ.\$	₹ करोड़	मिलियन अ.\$	₹ करोड़	मिलियन अ.\$	₹ करोड़	मिलियन अ.\$
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल आरक्षित निधि	6587915	682354	76752	6118	34054	-8753	547035	-15838
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	5367324	555929	61494	4873	129957	3647	271837	-32997
1.2 स्वर्ण	994988	103058	15299	1308	-99321	-12338	253461	17353
1.3 विशेष आहरण अधिकार	179746	18617	-18	-53	3157	-4	17005	-192
1.4 आईएमएफ में आरक्षित निधि की	45857	4750	-23	-11	262	-58	4732	-3

* घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

इसमें (ए) भारतीय रिज़र्व बैंक की एसडीआर धारिता, क्योंकि वे एसडीआर धारिता के तहत शामिल हैं; (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्ड में निवेश; (सी) सार्क और एसीयू मुद्रा स्वैप व्यवस्था के तहत उधार दी गई राशि और (डी) नेक्सस ग्लोबल पेमेंट्स के वित्तपोषण में रिज़र्व बैंक का योगदान शामिल नहीं है।

4. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक – भारत में कारोबार						
(₹ करोड़)						
मद	15 जुलाई 2026 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2025-26	2026-27	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
2 अन्यो के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमा राशियां	26284574	-259710	745105	55787	2148534	2958868
2.1क. संवृद्धि (प्रतिशत)		-1.0	3.3	0.2	10.1	12.7
2.1.1 मांग	3191601	-347705	103986	-497673	411713	389566
2.1.2 मीयादी	23092973	87995	641119	553460	1736821	2569302
2.2 उधार	918791	78966	-59963	110874	-29492	63505
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1140844	-41670	-89709	17321	85494	168921
7 बैंक ऋण	21733383	-197015	225920	373486	1657774	3263490
7.1क. वृद्धि (प्रतिशत)		-0.9	1.2	1.7	9.9	17.7
7 क.1 खाद्य ऋण	120730	-11319	22462	50459	28730	61738
7 क.2 खाद्येतर ऋण	21612652	-185697	203459	323027	1629044	3201753

नोट: आंकड़ों में 1 जुलाई 2023 से किसी गैर-बैंक के किसी बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार 15 दिसंबर 2025 से पखवाड़े की परिभाषा को एकांतर शुक्रवार से संशोधित करके प्रत्येक महीने की 15 तारीख और कैलेंडर के अंतिम दिन कर दिया गया है।

6. मुद्रा स्टॉक: घटक और स्रोत												
(₹ करोड़)												
मद	को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2026		पखवाड़ा^		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2025-26		2026-27		2025		2026	
	31 मार्च	15 जुलाई	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	31453126	31646426	-246894	-0.8	854667	3.1	193300	0.6	2440169	9.5	3505170	12.5
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	4065488	4212008	12343	0.3	98264	2.7	146520	3.6	260123	7.5	482992	13.0
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	3844879	3344685	-349425	-9.5	104805	3.7	-500194	-13.0	411259	16.2	399858	13.6
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	23410625	23968560	91080	0.4	654772	3.2	557935	2.4	1750624	8.9	2611280	12.2
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	132134	121173	-892	-0.7	-3174	-2.8	-10961	-8.3	18162	19.7	11040	10.0
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	9369275	9345605	8230	0.1	103379	1.2	-23670	-0.3	919840	12.0	731401	8.5
2.1.1 रिज़र्व बैंक	2079086	1881214	-41856		78221		-197872		504790		294887	
2.1.2 अन्य बैंक	7290189	7464391	50086	0.7	25158	0.4	174203	2.4	415050	6.3	436514	6.2
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	22226641	22583517	-203494	-0.9	198366	1.0	356876	1.6	1690317	9.6	3317021	17.2
2.2.1 रिज़र्व बैंक	28247	12202	-6960		-30281		-16046		-3142		4237	
2.2.2 अन्य बैंक	22198394	22571315	-196535	-0.9	228647	1.2	372922	1.7	1693459	9.6	3312785	17.2
नोट: आंकड़ों में 14 जुलाई 2023 से किसी गैर-बैंक के किसी बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।												
^: 30 जून 2026 के संबंध में।												

8. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन										
(₹ Crore)										
तारीख	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधायें	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन(+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	प्रतिवर्ती रेपो	परिवर्ती दर रेपो	परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो	एमएसएफ़	एसडीएफ़		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6		8	9	
20-जुलाई-26	-	-	72051	-	623	153619	565	-	-	-80380
21-जुलाई-26	-	-	34291	-	54	128594	1560	-	-	-92689
22-जुलाई-26	-	-	7200	-	216	129551	-	-	-	-122135
23-जुलाई-26	-	-	-	-	483	185102	1047	-	-	-183572
24-जुलाई-26	-	-	-	-	55	178417	-976	-	-	-179338
25-जुलाई-26	-	-	-	-	60	174793	-	-	-	-174733
26-जुलाई-26	-	-	-	-	148	175530	-	-	-	-175382
एसडीएफ़: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ़: सीमांत स्थायी सुविधा।										